



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्रतीभकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 1]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 1981/पाउस 11, 1902

No. 1]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 1981/PAUSA 11, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1981

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 4ई०टी०सी० (पी०एन०)/81

विषय : 1-1-81 से 30-6-81 अवधि के लिए बैराइट्स की निर्यात नीति

मि सं० 6(6)/80-ई० II.- उक्त विषयक सार्वजनिक सूचना सं० 4-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80, दिनांक 26 जुलाई, 1980 के साथ पठित सार्वजनिक सूचना सं० 18-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80, दिनांक 18 मई, 1980 की ओर ध्यान दिनाया जाता है।

2. निर्यात की पुनरीक्षा करते पर यह निश्चय किया गया है कि 1-1-81 से 30-6-81 तक की अवधि के दौरान बैराइट्स की निर्यात श्रेणियों के निर्यात पर नीचे यथा प्रदर्शित निम्नलिखित न्यूनतम कीमतें तत्काल लागू होंगी :-

(जहाज पोल्ट निर्यातक सूच्य प्रति मीट्रिक टन अमरीकन डॉलर में भारतीय धन/मद्रान)

- | | |
|--|-------|
| (1) बैराइट्स पूर्ण श्रॉ० सी० एम०
ए०/ए० पी० आई० श्रेणी
(4.20 बिफिट घनत्व के साथ) | 67.00 |
| (2) बैराइट्स के पिण्ड श्रॉ० सी० एम०
ए०/ए० पी० आई० श्रेणी
(4.20 बिफिट घनत्व के साथ) | 42.00 |

यद्यपि उपर्युक्त निम्नतम कीमतें 1 जनवरी, 1981 से 6 महीनों की अवधि के लिए हैं, परन्तु अगली साइमस अवधि अवधि 1981-82 के लिए नीति में यदि कोई परिवर्तन होगा तो सरकार निम्नतम कीमतों पर पुनः विचार कर सकती है।

3. यह भी निश्चय किया गया है कि यदि निर्यातक क्राफ्ट पेपर पैकिंग के लिए अनिवार्य धनराशि प्राप्त कर रहे हों तो क्राफ्ट पेपर पैकिंग में बैराइट्स को श्रॉ० सी० एम० ए०/ए० पी० आई० श्रेणियों के निर्यात की अनुमति 67 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन और 42 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन, जैसा भी मामला हो, न्यूनतम कीमत से अधिक के लिए और गुटिका निर्माण के लिए न्यूनतम 8 अमरीकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के लिए दी जाए। लेकिन क्राफ्ट पेपर पैकिंग की क्रेता से प्राप्त की जाने वाली मानक लागत की निकामी ऐसे पैकिंग के लिए संविधान करने में पहले सरकार से करा लेनी चाहिए।

4. समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 18-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80 दिनांक 17 मई, 1980 के अनुसार की गई संविधान अवधान-निर्यात क्रियाविधि पुस्तक, 1980-81 के पैरा 223-क में उल्लिखित प्रावधानों का पूर्ण करने को जर्म के अग्रिम स्वीकार को जाने के लिए अनुज्ञेय होंगी।

5. सार्वजनिक सूचना सं० 18-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80 दिनांक 17 मई, 1980 और सं० 34-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80 दिनांक 25 जुलाई 1980 में उल्लिखित अन्य नमों शर्तें 1-1-81 से 30-6-81 की अवधि के दौरान बैराइट्स के निर्यात के लिए लागू होंगी।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 1st January, 1981

EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 4-ETC(PN)/81

Subject:—Export Policy of Barytes for the period 1-1-1981 to 30-6-1981.

F.No.6(6)/80-E-11.—Attention is invited to Public Notice No. 18-ETC(PN)/80 dated the 17th May, 1980, read with Public Notice No. 34-ETC(PN)/80 dated the 5th July, 1980, on the above subject.

2. In review of the situation it has been decided that with immediate effect the following floor prices will be applicable on the export of different grades of barytes during the period 1-1-1981 to 30-6-1981 as shown below:

	(In US \$ per MT FOBT In- dian Port/Mad- ras)
(i) Barytes powder OCMA/API grade (with 4.20 specific gravity).	67.00
(ii) Barytes lumps OCMA/API grade (with 4.20 specific gravity).	42.00

Although the above floor prices are for a period of 6 months w.e.f. 1-1-1981, Government reserves the right to review the floor prices in the event of any change being made in the export policy for Barytes for the next licensing period i.e. 1981-82.

3. It has also been decided to allow export of OCMA/API grades of Barytes in Kraft paper packing if the exporters are getting extra amount for this type of packing over and above the floor price of US \$ 67/- per M.T. and US \$ 42/- per M.T. as the case may be and a minimum of US \$ 8/- per M.T. for pelletization. However, the standard cost of Kraft paper packing to be charged from buyers should be got cleared from Government before entering into the contracts for such packing.

4. The contracts entered into in terms of Public Notice No. 18-ETC(PN)/80 dated the 17th May, 1980, as amended from time to time will be allowed to be honoured subject to fulfilment of provisions laid down in paragraph 223-A of the Hand Book of Import-Export Procedures, 1980-81.

5. All other conditions mentioned in Public Notice No. 18-ETC (PN)/80 dated the 17th May, 1980, and No. 34-ETC(PN)/80 dated the 5th July, 1980, shall be applicable to export of Barytes during the period 1-1-1981 to 30-6-1981.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports